

## @Shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य:- दिनांक-20.07.22

मानवता की मिशाल, शाहजहाँपुर पुलिस का एक और बड़ा कदम ,

ट्विटर पर किया गया ट्वीट, सोशल मीडिया सेल ने दिखाई तत्परता,

ट्वीट के मात्र #01 घन्टे के अन्दर आरक्षी ने रक्तदान कर बचायी जान, परिजनों ने दिया धन्यवाद ।

श्री एस0 आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफोर्म्स फेसबुक/ट्विटर/व्हाट्स एप /इन्स्टाग्राम/यूट्यूब आदि पर यूजर्स द्वारा किये जा रहे किसी प्रकार की गतिविधि पर कड़ी नजर बनाये रखने के साथ साथ किसी भी यूजर्स द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही शिकयतों/मदद करने हेतु जनपदीय सोशल मीडिया सेल को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

इसी क्रम में दिनांक 20.07.22 को समय सुबह 09.08 बजे पर ट्वीट कर्ता MukEm\_HusAin जिनका ट्विटर हैंडल @MukeEmHusAin1 से शाहजहाँपुर पुलिस के ट्विटर एकाउण्ट @shahjahanpurpol पर ट्विट किया

“एक बच्चा ऋषभ जिसकी उम्र लगभग 2वर्ष है जो वर्तमान समय डा.यू.डी.कपूर शाहजहाँपुर अस्पताल में भर्ती है जिसको अर्जेंट एक बोटल B+ब्लड की जरूरत है। सम्पर्क सूत्र +919956369929”

प्राप्त ट्विट का सोशल मीडिया सेल द्वारा तत्काल सज्ञान लेते हुये ट्वीट में दिये गये मोबाइल न0 पर सम्पर्क करते हुये नन्हे ऋषभ के पिता सुरजीत निवासी ग्राम सफीपुर थाना शाहाबाद, शाहाबाद जनपद हरदोई से सम्पर्क करते हुये जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा पुत्र ऋषभ जिसकी उम्र 02 वर्ष है, कपूर हास्पिटल में भर्ती है, जिसे चिकित्सक के द्वारा ब्लड की आवश्यकता को बताया गया है, यदि ब्लड समय पर न मिला तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है।

तदोपरात सोशल मीडिया सेल द्वारा तत्परता दिखाते हुये पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाहजहाँपुर की रीडर शाखा में नियुक्त आरक्षी नरेन्द्र सिंह से सम्पर्क करते हुये स्वेच्छा से रक्तदान करने हेतु तत्काल मदद हेतु अस्पताल रवाना कराया गया। उक्त कर्मी द्वारा मौके पर पहुँचकर रक्तदान करते हुये बच्चे एवं उनके परिजन को सांत्वना के साथ हरसंभव मदद करने का भरोसा दिलाया ।

\*ट्वीटकर्ता/ट्विटर हैंडल :- MukEm\_HusAin @MukeEmHusAin1\*

\*रक्त प्रदानकर्ता आरक्षी - \*

आरक्षी नरेन्द्र सिंह तैनाती रीडर शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाहजहाँपुर ।

आरक्षी आरक्षी नरेन्द्र सिंह तैनाती रीडर शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय शाहजहाँपुर द्वारा तत्काल अस्पताल पहुँचकर रक्तदान कर उनकी मदद की । परिवारजनो द्वारा उक्त आरक्षी को ढेरों आशीर्वाद दिये तथा शीघ्र मदद हेतु शाहजहाँपुर पुलिस का धन्यवाद दिया एवं ट्वीट कर्ता MukEm\_HusAin द्वारा ट्विटर के माध्यम से शाहजहाँपुर पुलिस के द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिये प्रशंसा के साथ धन्यवाद दिया गया ।

